

कक्षा जाठपी

विषय प्रैरुच्ची

पूरीक : 85

उक्त क ②5

1. अपीठित गद्योऽश 5

2. पीठित पद्योऽश 10

3. पीठित गद्योऽश 5

4. पीठित पद्योऽश की सम्पत्ति
व्याख्या 5.

उक्त - इ ⑯

5. पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न — 10
(वैसत-3)

6. भारत की बोल पुस्तक पर आधारित प्रश्न — 6

उक्त - ग ⑩

7. हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न — 20

8. संस्कृत व्याकरण आधारित — 12
भाग-घ

9. निबन्ध लेखन — 7

10. पत्र लेखन — 5

रोल नं.

यात्रा आठवीं

क्रमांक १४३५

समय : ३ घण्टे

हिन्दी

गुरुवीय ८५

गोट :- गाड़ी परन अनिवार्य है। परनेज परन भी गाड़ी भाग परन है एवं गाड़ी करौं परनों भी गाड़ी भागने दिए गए हैं।

उत्तर (प्र)

प्र० ५

प्र० ६ गाड़ियां यो पद्धति निम्न प्रश्नों पर उत्तर दें:-

गाड़ियां और सामाजिक गुणों यो भाग में परिचय द्याने यो लिए नियमों गोपन गे कार्य भाग में होता है। यात्रक गत में गुण गोपनों यो जाहज और विकास यो गत गत होता है। यात्राकाल में गाड़ी गिरावट की योग्यता यो गत में दौरे गुणों यो अवनाया गाड़ी है यात्राकाल में दौरे गाड़ी गिरावट यो अंग गत दौरे हैं। इसी प्रकार यो गुणावाल गत अवधि में गते गुण यो गत में उत्तर छुटकारा गता यो गती गिरावट हो गता है योग्यता यो गत में दौरे है। गेलियर गिरावट गुणावाल दृष्टिकोणों यो गुणिन गिरावट यो गत है न कि गाड़ियां गत गत में दौरे योग्यता यो। दूरों निहित गाड़ियों यो गुणी यो गती ही गाड़ियों यो गते यो गतांग गहरी हैं। अतः गिरावट यो गुणावाल अवधि गत गत गती गतांग-गतांग यो गिरावट में रखनालग घोषकल देता होता अन्यथा गेलियर यो गिरावट गती गतर्थ है।

- (१) गद्यांश का उपग्रहक शीर्षक दो।
- (२) किस अपद्धा में संस्कारों को विकसित करना सरल दोता है?
- (३) मृत्यु - पाहने पर भी लुरे दोस्कारों से हुयकारा क्यों नहीं पा लकता है?
- (४) मृत्युद और सम्म दोस्कारों को मृत्यु की किस अपद्धा में विकसित किया जा लकता है?
- (अ) लुकपे और (ब) बाल्यकाव में (स) जवानी में आज जानव, जानव से क्यों अलग है।
- (इ) अपनेपन के कारण (ब) पराये पन के कारण (इ) माईचोर के कारण (द) नीहित स्वार्थ के कारण

प्र० २. नीचे लिखे पद्धति को पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

$$5 \times 2 = 10$$

जाति न पूछे साध की, पूछ लौजिए ग्यान।

मोल कहे तरवार का, पढ़ा रहन दी ग्यान॥

(क) कवि और कविता का नाम तिखिए।

(ख) कवीर ने क्या न पूछने की बत कही है ?

(ग) कवीर ने दूसरों से क्या पूछने के लिए कहा है ?

(घ) कवीर ने क्या गिरावट है ?

(ङ) तरवार का मोल क्यों करना चाहिए ?

प्र० ५. a गठित गांधी और पद्मपाल निम्न प्रश्नों को उत्तर दें : -
 चबूत्र या कार्बन रासा ही एक गणितीय पद्धतिकरण प्रक्रिया नहीं यह यहाँ से पुरानी ही। अगले में ही उत्तराता सुनकर रासा रसायन जिसे पद्धति-विद्या में दीता रहत। विद्या में गोपनीयता या रासायनिक विद्यालय योग्य गोपनीयता। यह मुझे 'भला' कहा जाता और मेरे गांधीयों ही गोपनीयता दीता रहत। लगभग सौ़ से यह था - छह जोड़े घटियों बनता। पुरा जोड़ा बना लेने पर यह उसे बोलन पर पद्धतिकरण कुछ शान सुषमापन मेलता रहता था भानो यह बोलन में होकर खिली नहीं वहाँ पूरी जाता ही हो।

- (१) पाठ और लेखन का नाम लिखो।
 (२) बदल 'लला' किसको कहकर प्रकारता था?
 (३) बदल कौन था?
 (४) -पर्मिकार (५) सुनार
 (६) -धूड़ियों बनाने वाल (७) लोहार
 (८) बदल हर रोज कितने जोड़े -धूड़ियों बनाता था?
 (९) बदल अपना कार्य कहाँ करता था?

प्र० ५. निम्नलिखित पद्धांश को सप्रसंग ल्याख्या कीजिए : 5

मैथा, कबहिं बैढ़गी चोटी ?

किती बार, मोहिं दूध पियत भई, यह अजहूँ है जोटी।

तू जो कहति बत की लेनी, ज्यौ है लौदी-नोटी।

काला-गुला नहवत चैहूँ, नानिन चौ धुइ लोटी।

कौची दूध पियावत पचि-पचि, देति न माछन-रोटी।

सूरज घिरजीवी दोड फैया, हरि-हलधर की जोटी।

माग यह

प्रश्न ५. पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित $5 \times 2 = 10$ पूछनों के उत्तर दो। — (कोई भला प्रौढ़)

(१) किसी को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अस्ति उत्तमी नहीं होगा?

(२) दोषीं का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप है सकृता है?

(३) ध्यापल बाज को देखकर साँप खुश क्यों हुआ?

(४) गवरड़या की दीपी पर पाँप लूँदने क्यों जड़ दिए?

(५) लेखक को जोस की बँद क्यों मिली?

(६) क्यों के उच्चम ग्रामों के कारण घर की क्षमा? →

दुर्दशा हड्डी

- प्रश्न-6. भारत में यैज़' पाठ्य पृष्ठक पर आधारित
प्रश्नों के ज्ञर दो। (कोई निन) $3 \times 2 = 6$
- (1) सिंधु धारी सभ्यता का उत्तर कैसे हुआ?
 - (2) अंग्रेज लरकार शिक्षा के प्रसार को जापनन्द
में करती थी?
 - (3) लेखक के अनुसार भारत माता का इतिहास
कैसा है?
 - (4) औरतों के पर्दे में अलग-अलग रहने से
सामाजिक जीवन के विकास में लकावट कैसे आई?

भाग- स

प्रश्न-7. (क) लिंग बदलो। $(4 \times \frac{1}{2} = 2)$

जर, भगवान, लेखक, शिक्षक

- (1) वन्नन बदलो। $(4 \times \frac{1}{2} = 2)$
काफी, पीहिपा, रात, कपड़े
- (2) पर्याप्तिवाची शब्द लिखो (कोई नो) $(2 \times 1 = 2)$
धर, आकाश, पुर्णि
- (3) किन्नीं दो उपसर्गों के दो-दो शब्द बनाओ—
अउ, पूर्णि, प्र
 $(2 \times 1 = 2)$
- (4) निम्नलिखित वाक्यों की लंबी लिखिए—
उम्मी + इन् उ सर + चरित्र $(2 \times 1 = 2)$
- (5) किन्नीं दो वाक्यांशों के लिए सह-सह शब्द
लिखो—
उ 1 जो परीक्षा में पास न हो $(2 \times 1 = 2)$
उ 2 जो बृहिदिन होगा है
उ 3 जो ईश्वर को मानता हो

- (इ) किन्धी दो सामाजिक शब्दों का विग्रह का
समाज का नाम लिखो — (2x1=2)
अर्थ प्रधारणित, दाल-रेथि, राजपूत, दशानन्
- (ज) लिपि किसे कहते हैं? (2)
- (झ) शब्दों को उनके घुट रूप में लिखो — (2x1=2)
① आसीरवाद ② रितु ③ प्रभाली
- (ञ) सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण लाइल लिखो (2)
पृष्ठ-४१ ऐतिहासिक शब्दों को निम्नशानुसार बदलकर
लिखो। (4x1=4)
- (ऋ) दूर के दृश्य घूबसूरत दिखते हैं।
(विलीन शब्द)
- (ऌ) शिमला हिमाचल की राजधानी है।
(संक्षिप्त शब्द लिखें)
- (ॲ) रमेश फल क्या है? (हिमा पद छाया)
- (ॲ) शेमा बड़ी - छुर है? (विरोषण शब्द छायें)

प्र० ४. II. किन्धी दो अहाकरों के अर्थ लिखकर बताय
बनाओ — (2x2=4)
कलम तौड़ना, अंर्द्ध मी लकड़ी, टेढ़ी खीर
पृष्ठ-४. III. किन्धी छुक्कर शब्दों के अर्थ लिखकर
बताय में प्रयोग करो — (1x4=4)
असीम, उजागर, चाव, जालूक, पैतूक,
थक्कीन, वसूधा

मात्रा - घ

(६)

पूँछन - ९. किसी स्कूल प्रधान पर निषेध लिखो—
जल संकट, दशहरा, पर्यावरण प्रदूषण (७)

पूँछन - १०. अपने जगर स्थान्ध्य अधिकारी की (५)
सफाई की व्यवस्था के लिए शिकायती पत्र
लिखो।


अथवा

अपने विद्युत्पालन के मुख्याध्यापक को अपने
भाई की शादी के कारण अकाश के लिए
प्रार्थना पत्र लिखो।

ClassResult.in

① प्रवीन महेश — कृष्ण

② विकास वाणिया → कृष्ण



HP CCE TERM 2 (2017-2018)
LEARNING OUTCOME FRAMEWORK SHEET


NAME: PARVEEN + VIKAS
PHONE NO.: 9418146572, 9418121274

CLASS: VIII SUBJECT: HINDI

Q. No.	Max. Marks	Type	Learning Outcome	Success criteria
		1 = Basic 2 = Mediocre 3 = Advanced	Select code from LO Handbook	Mark/s greater than or equal to
1	5	2	8001, 04, 0511	3
2	10	2	8006, 09, 1216	6
3	5	2	—do—	3
4	5	3	8005, 04, 010	3
5	10	1, 2, 3	8006, 10, 809	6
6	6	1, 2, 3	—do—	4
7	20	1, 2, 3	8008, 09	14
8	12	1, 2, 3	810	8
9	7	2	814, 18, 21, 22	4
10	5	2	819	3

NOTE: ALTERNATIVE QUESTIONS FOR EACH ITEM SHOULD HAVE SAME MAX MARKS, TYPE, LEARNING OUTCOME AND SUCCESS CRITERIA.


(पर्वीन वालिया)
9418121274


(विकास मल्होत्रा)
9418146572

विषय - हिन्दी

कक्षा - ४

- हिन्दी

क्रम संख्या	कोड	सीखने वाले प्रतिक्रिया
		चर्चे
1	H801	विभिन्न विषयों पर अधिकारि विधिप्रकार भी एवनाओं को पढ़कर चर्चा करते हैं, जैसे- पाठ्यपुस्तक में किसी वक्ती के बारे में पढ़कर पहियों पर चिन्ही गई मलीम अली चीज़ वितान पढ़वार चर्चा करते हैं।
2	H802	हिन्दी भाषा में विभिन्न प्रकार भी सामाजी (समग्राचार, पर-परिवार, बाहानी, जानकारीपालक सामग्री, इन्टरनेट, ब्लॉक पर छाने वाली सामग्री आदि) को पढ़कर समझते हैं और उन्हें अपनी पांच-पाँचलंब, टिप्पणी, दाय, निष्कर्ष आदि को मीलिंग/ सांकेतिक भाषा में अभिव्यक्त करते हैं।
3	H803	पढ़ी गई सामाजी पर चिन्तन बनाते हुए समझ के लिए प्रश्न पूछते हैं।
4	H804	अपने परिवेश में भौजूद लोकताथाओं और तोबतीओं के बारे में बताते/ सुनाते हैं।
5	H805	पढ़कर, अपरीचित परिस्थितियों और पठनाओं की कल्पना करते हैं और उन पर अपने गन में बनने वाली छवियों और विचारों के बारे में भौलिंग/ सांकेतिक भाषा में बताते हैं।
6	H806	विभिन्न संवेदनशील मुद्राएँ / विषयों, जैसे- जाति, धर्म, रंग, जेंडर, रीत-हिवारों के बारे में अपने मित्रों, अध्यापकों या परिवार से प्रश्न करते हैं, जैसे- अपने गोहन्से के लोगों से खट्टीहार घनाने के तरीके से बातचीत करता।
7	H807	किसी एवना को पढ़कर उसके सामाजिक भूयों पर चर्चा करते हैं। उसके कारण जानने वाली कोशिश करते हैं, जैसे- अपने आह-पास रहने वाले परिवारों और उनके रहन-सहन पर सोचते हुए इश्क करते हैं- राष्ट्र काका की बेटी स्कूल जाने नहीं चाहती?
8	H808	विभिन्न प्रकार भी सामग्री, जैसे- कहानी, कविता, लोछ, रिपोर्ट, संस्मरण, निबंध, व्याय आदि को पढ़ते हुए अथवा पाठ्यपुस्तु की बारीकी से जीविक करते हुए उसका अनुमान लगाते हैं, विश्लेषण करते हैं, विशेष विद्यु को खोजते हैं।
9	H809	पढ़ी गई सामग्री पर चिन्तन करते हुए बेडरूम समझ के लिए प्रश्न पूछते हैं।
10	H810	विभिन्न पठन सामग्रियों में प्राकृत शब्दों, मुहावरों, सोनेकियों को सापड़ते हुए उनकी सामाजिक चर्चा है।
11	H811	कहानी, कविता आदि पढ़कर लोकन के विधिप्रयोग तरीकों और रोलों को पहचानते हैं, जैसे वर्जायनक, विवरणात्मक, भावात्मक, प्रकृति विद्या आदि।
12	H812	विभिन्न पठन सामग्रियों में को पढ़ते हुए उनके शिव्य वाली साधना करते हैं और अपने स्वरानुसार भौलिंग, सिडित, ब्रेल/ सांकेतिक रूप में उसके लोगों में अपने विचार व्यक्त करते हैं।
13	H813	किसी पाठ्यपुस्तु को पढ़ने के दौरान समझने के लिए अस्फूरत पढ़ने पर अपने किसी सहायाती या शिक्षक की मदद लेकर उपयुक्त सन्दर्भ सामग्री, जैसे- शब्दकोश, विश्लेषण, मानविच, इन्टरनेट या अन्य सुरक्षकों की मदद लेते हैं।
14	H814	अपने पाठक और लिखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी जात को प्रभावी तरीके से दिखाते हैं।
15	H815	पढ़कर अपरिचित परिस्थितियों और पठनाओं की कल्पना करते हैं और उन पर अपने मन में बनने वाली छवियों और विचारों के बारे में लिखित या ब्रेल भाषा में अभिव्यक्त करते हैं।
16	H816	भाषा वाली वार्ताकियों / व्यवस्था का लिखित प्रयोग करते हैं, जैसे- कविता के शब्दों को अदलावर अर्थ और लिपि को समझाना।
17	H817	विभिन्न अवसरों/ सदनों में कही जा रही दृश्यों की बातों को अपने दृग से लिखते हैं, जैसे- स्कूल के किसी कार्यक्रम की रिपोर्ट बनाना या किसी अपने गांव के मेले के दुकानदारों से बातचीत।
18	H818	अपने अनुभवों को अपनी भाषा शैली में लिखते हैं, लोकन के विभिन्न तरीकों और शैलियों का प्रयोग करते हैं, जैसे- विभिन्न हडीकों से (कहानी, कविता, निबंध आदि) कोई भनुभव।
19	H819	ऐनिक जीवन से अलग किसी घटना/ घटना पर विभिन्न तरीके से सुननात्मक ढंग से लिखते हैं, जैसे- सौशल मीडिया पर, रोट्सुक पर या संपादक के नाम पर आदि।
20	H820	विभिन्न कलाओं, जैसे- हस्तकला, बाल्सुकला, खेती-बाड़ी, नृत्यकला और इनमें प्रयोग होने वाली भाषा (एंगिस्टर) का सूननात्मक प्रयोग करते हैं, जैसे- कला के बीज बोना, मनमोहक मुद्राएँ, रस की अनुभूति।
21	H821	अपने पाठक और लिखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी जात को प्रभावी तरीके से लिखते हैं।
22	H822	अभिव्यक्ति की विधिप्रयोगों रूपों को पहचानते हैं, स्वयं लिखते हैं, जैसे- कविता, कहानी, निबंध आदि।
23	H823	पढ़कर अपरिचित परिस्थितियों और पठनाओं की कल्पना करते हैं और उन पर अपने मन में बनने वाली छवियों और विचारों के बारे में लिखित/ ब्रेल भाषा में अभिव्यक्त करते हैं।